

फा. सं. 16015/06/2019-एसडी.॥ (ई-84501)

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

\*\*\* \*\*

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 24 अगस्त, 2022

### रिक्ति परिपत्र

विषय: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय - राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में प्रशासनिक लेखा अधिकारी के पद को भरे जाने के संबंध में।

.....

राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में प्रशासनिक लेखा अधिकारी का एक (01) पद भरे जाने का प्रस्ताव है। इस पद के लिए भर्ती की रीति, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और अन्य पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:

#### 1. प्रशासनिक लेखा अधिकारी (एक पद):

वेतन मैट्रिक्स 44,900-142400 रुपये के लेवल-7 में सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, (गैर-अनुसचिवीय)। यह पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।

#### पात्रता शर्तें:

2. प्रतिनियुक्ति: केंद्र / राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसा अधिकारी जो:

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक हो; अथवा

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स 35,400 - 112400 रुपये के लेवल - 6 अथवा समकक्ष पदधारी हो, में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उक्त ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित में से किसी एक में अर्हता धारक हो अर्थात् :-

(i) अधीनस्थ लेखा सेवा अथवा केंद्र सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोजित रोकड़ और लेखा अथवा समकक्ष में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव हो।

[केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा निर्देशों के अनुसार होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (अल्पकालिक अनुबंध सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

3. पात्र उम्मीदवारों, जिन्हें चयन होने पर तत्काल कार्यमुक्त किया जा सके, के आवेदन (तीन प्रतियों में), निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक -2 में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार अग्रेषण प्राधिकारी से प्रमाण पत्र के साथ अनुलग्नक -1 में निर्धारित प्रोफार्मा में अग्रेषित किया जाए: -

(i) संवर्ग स्वीकृति

(ii) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र

(iii) पिछले दस वर्षों के दौरान अधिकारियों पर लगाई गई बड़ी/छोटी शास्ति की सूची (यदि कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी, तो 'शून्य' प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)।

(iv) सतर्कता निकासी प्रमाण-पत्र

(v) पिछले पांच वर्षों के एपीएआर की फोटोकॉपी, जिसका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी द्वारा सत्यापित हो जिसका रैंक भारत सरकार के अवर सचिव के रैंक से कम न हो।

4. पूरा विज्ञापन, बायोडाटा प्रारूप (अनुलग्नक -1) और सीसी, आईसी, वीसी और एमएमपी (अनुलग्नक -2) आदि के लिए प्रमाण पत्र कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाइट [www.agricoop.nic.in](http://www.agricoop.nic.in) (लिंक-भर्ती-रिक्तियां) और एनएसआरटीसी वेबसाइट: [www.nsrtc.nic.in](http://www.nsrtc.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन (तीन प्रतियों में) **इम्प्लॉइमेंट न्यूज़/ रोजगार समाचार में इस परिपत्र के प्रकाशन के 60 (साठ) दिनों के भीतर** अवर सचिव (बीज), कमरा नंबर 432, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 को अग्रेषित किया जाए। उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए आवेदन या अपेक्षित प्रमाण पत्र और प्रासंगिक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*S. S. Jain*

(एस.एस.वगुलापर्णम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23385784

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया इस पद का अपने संबंधित संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया जाए ।
2. प्रधान सचिव/सचिव (कृषि), सभी राज्य सरकारें/सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन
3. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन सभी प्रभागीय प्रमुख/ निदेशक (कार्मिक)/ सभी अनुभाग / डेस्क / इकाइयां ।
4. एएचएंडडी/ डेयर/ सीएसीपी/ डीटीई के विभाग/ अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय ।
5. वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एनआईसी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ।
6. व्यापक प्रचार के लिए निदेशक (एनएसआरटीसी) और साथ ही एनएसआरटीसी की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
7. गार्ड फ़ाइल/ अतिरिक्त प्रतियां ।

*एस.एस. वगुलापर्णम*  
(एस.एस.वगुलापर्णम)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23385784